

Accounting जिसे हिंदी में लेखांकन कहा जाता है, एकाउंटिंग कार्य करने से पहले हमें इसके **Golden Rules of Accounting in Hindi** की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन्हीं नियमों की माध्यम से हम अपने **business** में होने वाले **Financial Transaction** की पहचान कर **Account Create** करके संबंधित **Account Group, Journal Books** एंट्री करना होता है.

दोस्तों अगर आपको **Accounting Job** करना है तो सबसे पहले आपको **एकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स** के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर आप लेखांकन के 3 सुनहरे नियम Expert हो जाएंगे तो आप आसानी से **Accounting Job Tally** के माध्यम से कर सकते हैं.

लेकिन दोस्तों आपको **Golden Rules of Accounting in Hindi** सीखने से पहले **एकाउंटिंग क्या होता है?** और एकाउंटिंग उपयोग होने वाले शब्दावली (**Basic Accounting Terms**) की जानकारी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि कॉमर्स बिजनेस कि दुनिया में अलग-अलग शब्दों का उपयोग होता है जैसे – **Debtor, Creditor, Stock Items, Goods, Assets, Proprietor, Capital, Finance** इत्यादि.

और आपको अंत में **Golden Rules of Accounting pdf download** करने का मौका भी मिलेगा.

Important Note - Dear Reader आप पुरे Notes को ध्यान से पढ़े क्योंकि इस आर्टिकल के अंत में आपको **Online Test** देना है, आपके लिए **Golden Rules of Accounting in Hindi** से सम्बंधित **Online Objective Exam** देना होगा. **Golden Rules of Accounting in Hindi**

Table Of Content [Show](#)

Golden Rules of Accounting in Hindi

Golden Rules of Accounting को हिंदी में **लेखांकन के सुनहरे नियम** कहा जाता है, जिसमें तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं जैसे व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और आय-व्यय खाता, इन एकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के विशेष नियम होते हैं जिन्हें **Golden Rules of Accounting** कहते हैं.

Example के लिए **व्यक्तिगत खाता** में **Receiver** (पाने वाला) **अकाउंट** को **Debit** किया जाता है उसी प्रकार **Giver** (देने वाला) **अकाउंट** को **Credit** किया जाता है.

Visit for Updated Notes

वास्तविक खाता में **What's Come in** (जो आता है) उस अकाउंट को **Debit** किया जाता है उसी प्रकार **What's Goes in** (जो जाता है) उस अकाउंट को **Credit** किया जाता है.

आय-व्यय खाता में **All Expenses & Losses** (सभी व्यय और हानि) उस अकाउंट को **Debit** किया जाता है उसी प्रकार **All Income & Gains** (सभी आय और लाभ) उस अकाउंट को **Credit** किया जाता है.

Golden Rules	Personal Account	Real Account	Nominal Account
Debit	Receiver	Whats Come In	All Expenses & Loss
Credit	Giver	Whats Goes Out	All Income & Gains

Golden Rules of Accounting in Hindi

Golden Rules of Accounting क्या है?

Financial Transaction को रिकॉर्ड करने के लिए Accounting में Account के Nature अनुसार Rules बनाया गया है जिसमे account में होने प्रभाव के अनुसार Debit और Credit करने के नियम है, जिसमे एक साथ दो account पर effect होता है.

जैसे 5000 रुपये Bank of Baroda में जमा किया इसमे दो account बनेगा **Cash Account** और **Bank of Baroda Account**, यहाँ पर *Bank of Baroda Account Receiver* इसलिए Debit होगा और **Cash Account Giver** है इसलिए Credit होगा.

Visit for Updated Notes

Golden Rules of Accounting			
	Personal A/c <u>व्यक्तिगत खाता</u>	Real Ac <u>वास्तविक खाता</u>	Nominal Ac <u>आय-व्यय खाता</u>
Debit नामे	Reciver <u>प्राप्तकर्ता (पाने वाले)</u>	Whats Come In <u>जो आता है</u>	All Expenses & Losses <u>खर्च और हानि</u>
Credit जमा	Giver <u>दाता (देने वाले)</u>	Whats Goes Out <u>जो जाता है</u>	All Income & Gains <u>आय और लाभ</u>

Golden

Rules of Accounting in Hindi

Types of Accounts in Golden Rules of Accounting in Hindi

मुख्य रूप से Accounting में तीन प्रकार के Account या खाते होते हैं -

1. Personal Account
2. Real Account
3. Nominal Account

Personal Account क्या है?

Personal Account जिसे हिंदी में **व्यक्तिगत खाता** के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार के account में किसी व्यक्ति से सम्बंधित होता है और इस खाते का एकाधिकार होता है Personal Account कहलाता है, जैसे - Ram A/c, Ramesh A/c, Laxmi A/c.

Types of Personal Account

1. Natural Personal Account

- Ram A/c.
- Kishan A/c.
- Trisha A/c
- Any Person Account

Visit for Updated Notes

- Capital A/c (Business के Owner का Account)
- Bank Overdraft Account (बैंक अधिविकर्ष खाता)
- Drawing Account.

2. Artificial Personal Account

- Any Company / Business Account.
- Govt. Department A/c.
- School, College, Any Educational Institute A/c.
- Insurance Company A/c.
- Charitable Trust A/c.
- Bank A/c.
- Partnership Firm A/c
- Non – Government Organization A/c.
- Social Organization A/c.

3. Representative Personal Account

- Prepaid Expenses A/c (पूर्वदत्त व्यय) Example – Prepaid Salary A/c, Prepaid Rent A/c, Prepaid Wages A/c.
- Outstanding Expenses A/c (अदत्त व्यय) Example – Outstanding Salary A/c, Outstanding Rent A/c, Outstanding Wages A/c.
- Accrued interest A/c (उपार्जित ब्याज खाता)
- Unearned Rent A/c (अनुपार्जित किराया खाता)
- Outstanding Premium A/c (अदत्त प्रीमियम खाता)

Golden Rules Of Personal Account

Types of Account	Golden Rules
Receiver (पाने वाला)	Debit (Dr.)
Giver (देने वाला)	Credit (Cr.)

Golden Rules of Personal Account

Example – Ramesh ने मोहन को 100 रुपये दिए.

इस example में Ramesh और मोहन के बीच लेनदेन हो रहा है, दोनों व्यक्ति हैं और खाते का हकदार वह अकेले है, इस प्रकार यह व्यक्तिगत खाता के वर्ग में आएगा.

Visit for Updated Notes

उपरोक्त उदाहरण में मोहन पाने वाला है और रमेश देने वाला है, इस प्रकार इसका **voucher entry** इस प्रकार होगा –

Golden Rules of Accounting in Hindi : Voucher entry in Tally / journal entry in एकाउंटिंग

Date	Particular	L.F.	Debit Amt.	Credit Amt.
01-02-2023	Mohan A/c		100	
	To Ramesh A/c			100

Example : Golden Rules of Personals Account

Real Account क्या है?

Real Account जिसे हिंदी में **वास्तविक खाता** के नाम से जाना जाता है, यह व्यापार की सम्पत्ति से सम्बंधित होता है, Real Account कहलाता है, जैसे – Purchase A/c, Sales A/c, Fixed Assets A/c इत्यादि.

Types of Real Account

- Tangible accounts. (मूर्त खाता)
- Intangible accounts. (अमूर्त खाता)

Tangible accounts. (मूर्त खाता)

Tangible खाता जिसे हिंदी में हम मूर्त खाता के नाम से जानते हैं, ये खाते व्यापार के सम्पत्ति से जिसे छु या देख सकते हैं मूर्त खाता के नाम से जाना जाता है. for example – Building A/c, Cash A/c, Goods A/c इत्यादि.

Intangible accounts. (अमूर्त खाता)

Tangible Account जिसे हिंदी में हम अमूर्त खाता के नाम से जानते हैं, ये खाते व्यापार के सम्पत्ति से जिसे छु या देख नहीं सकते हैं अमूर्त खाता के नाम से जाना जाता है. for example

– Goodwill, Patent, Copyright, Trademark इत्यादि.

Real account (वास्तविक खाता) के Golden Rules

Types of Account	Golden Rules
What's Come in (जो आता है)	Debit (Dr.)
What's Goes in (जो जाता है)	Credit (Cr.)

Golden Rules of Real Account

Visit for Updated Notes

Example – श्री तृषा कंप्यूटर से लखन ट्रेडर्स 15000 रुपये का computer system खरीदा.

लखन ट्रेडर्स इस example में श्री तृषा कंप्यूटर से computer system खरीदा जा रहा है, उपरोक्त उदाहरण में computer system हमें प्राप्त हो रहा है जो की मूर्त सम्पत्ति है और नगद रुपये जा रहा है या भी मूर्त सम्पत्ति, इसलिए इसका voucher entry इस प्रकार होगा –

Voucher entry in Tally / journal entry in एकाउंटिंग

Date	Particular	Debit Amount	Credit Amount
01-04-2023	Computer System A/c	1500	
	To Cash A/c		1500

Example : Golden Rules of Real Account

Nominal Account क्या है?

Nominal Account जिसे हिंदी में **आय-व्यय खाता** के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार के account में किसी Income – Expenses Account से सम्बंधित होता है, **Nominal Account** कहलाता है, जैसे Rent A/c, commission received A/c, salary A/c, wages A/c, conveyance A/c, इत्यादि.

Nominal account (आय-व्यय खाता) के Golden Rules of Accounting in Hindi

Types of Account	Golden Rules
All Expenses & Losses (सभी व्यय और हानि)	Debit (Dr.)
All Income & Gains (सभी आय और लाभ)	Credit (Cr.)

Nominal account (आय-व्यय खाता) के Golden Rules

Example – बिजली बिल के 1000 रुपये दिए.

इस example में बिजली बिल भुगतान लेनदेन हो रहा है और एक Electricity Bill account जो की Expenses जो Nominal account है इसी प्रकार cash account Real account है. इस प्रकार इसका voucher entry इस प्रकार होगा –

Voucher entry in Tally | Journal Entry in Accounting

Date	Particular	L.F.	Debit	Credit
04-04-2023	Electricity Bill A/c		1000	

Visit for Updated Notes

Date	Particular	L.F.	Debit	Credit
	To Cash A/c			1000

Example : Golden Rules of Nominal Account

Golden Rules of Accounting With Examples in Hindi

निम्नलिखित व्यवहारों को श्री राम कम्प्यूटर्स की पुस्तक में नकल प्रविष्टियां (Journal Entry) करिये -

- (1) नगद धन 18,000 रु व्यापार प्रारंभ किया।
- (2) Color Printer खरीदा 10 नग, पर नग रेट - 8000 रुपये।
- (3) रमेश को एक Color Printer 10000 में बेचा।
- (4) एक Color Printer 10000 में बेचा।
- (5) रमेश से 10000 रुपये प्राप्त हुआ।
- (6) एच पी कम्पनी से ब्लैक एंड व्हाइट 10 प्रिंटर 7500 प्रति नग से खरीदा।
- (7) एच पी कम्पनी को Payment किया।

Journal Entry of Shri Ram Computers or Voucher Entry of Financial Transaction

Q. No.	Particulars	L.F.	Debit Amt.	Credit Amt.	Voucher Entry
1	Cash A/c Dr.		18000		Receipt Voucher
	To. Capital A/c			1800	
2	Purchase Ac Dr.		80000		Purchase Voucher
	To Cash A/c			80000	
3	Ramesh A/c Dr.		10000		Sales Voucher
	To Sales A/c			10000	
4	Cash A/c Dr.		10000		Sales Voucher
	To Sales			10000	
5	Cash A/c Dr.		10000		Receipt Voucher
	To Ramesh A/c			10000	

Visit for Updated Notes

<https://www.cgmarketguru.com/>

Q. No.	Particulars	L.F.	Debit Amt.	Credit Amt.	Voucher Entry
6	Purchase A/c Dr. (B/W Printer 10*7500)		75000		Purchase Voucher
	To Hp Company			75000	
7	HP Company Dr.		75000		Payment Voucher
	To Cash Ac/c			75000	

Golden Rules of Accounting in Hindi

Visit for Updated Notes

<https://www.cgmarketguru.com/>